

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 642]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1834.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	श्रीमति सुशीला विष्णु प्रसाद चौरसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	लक्ष्मी बाई चौधरी	निर्दलीय
3		पार्षद	2	शारदा तिवारी	निर्दलीय
4		पार्षद	3	गोपाल चक्रवर्ती	निर्दलीय
5		पार्षद	4	श्रीमती नीलम विजयंत साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	सबा अरशद खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छ: शंकर यादव “भूरा”	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला जबलपुर.	पार्षद	7	सात	रामवती	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	आलोक पाण्डे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	रामलोचन कोल (लोचन)	बहुजन समाज पार्टी
11		पार्षद	10	दस	ज्योति राजेश पटेल	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	मनीष दुबे	शिवसेना
13		पार्षद	12	बारह	भारती राजेश पटेल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	गोविंद कुर्मी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	गनेश सिंह दाहिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	रमा सोनी	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	“उर्मिला राजू दुबे”	निर्दलीय
18		पार्षद	17	सत्रह	शेख शहीद	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अट्ठारह	निशा उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1835.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, पनागर, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद्, पनागर, जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	श्रीमती रीना आनंद जैन (मिंचू)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	“रविचरण पाण्डे”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	रीतू तुलसीराम कुशवाहा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अनिल केश लाल रजक (भगतजी)	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	मो. अब्बास मंसूरी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नगरपालिका परिषद्, पनागर, जिला जबलपुर	पार्षद	5	पांच	श्रीमती उमाबाई नारायण दाहिया	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	मनोज वंशकार (पहलवान)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	“राजेश तिवारी”	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रेखा पटैल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	ज्योति विमल जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	दिलीप कुमार पटैल	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अमित सीतपाल (डोडल)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	प्रदीप कुमार कोल	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	पूनम के. के. कुशवाहा	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	अंजना कुशवाहा (रसिया)	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	लक्ष्मी पटैल W/o श्री सुरेश पटैल	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1836.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बरेला, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, बरेला जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	निशा तिवारी “शास्त्री”	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	चूरामन खजान्ची पटैल	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	प्रतीक “मानव”	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	संध्या बृजबिहारी सोनी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	चंदन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रश्मि राकेश चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	कृष्ण कुमार (कृष्णा)	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	प्रकाश चक्रवर्ती मूर्तिकार	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	मीना बाई सोनकर	निर्दलीय
10		पार्षद	9	नौ	अमरती बाई	निर्दलीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नगर परिषद्, बरेला जिला जबलपुर.	पार्षद	10	दस	हेमन्त विश्वकर्मा (मुनि)	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रतिभा (ओंकार शर्मा)	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	विजय सागर सोनकर (सोनू)	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	गिरजा बाई चंद्रानी पटैल	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	राजकुमार गोंटिया (राजू)	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	सुनीता मुकेश	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1837.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पाटन, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, पाटन जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	नीराबाई कृष्णा बेहुरे	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	राजकुमार (अन्नु)	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	साहब	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	अखिलेश सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	ठाकुर प्रसाद	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	गोविन्द चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः	संगीता राजेन्द्र राठौर	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	देवदत्त बबेले	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	ममता कैलाश पाठक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	जुगल किशोर ठाकुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	पिंकी चडार	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	प्रेमनारायण दुबे	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	आरफा परवीन	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	नगर परिषद्, पाटन जिला जबलपुर.	पार्षद	13	तेरह	श्रीमति प्रीती गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	उर्मिला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मधु राधेश्याम नामदेव	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1838.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, मझौली, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, मझौली जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	आजाद साहू	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2		पार्षद	1	एक	आशमीन मु. शकील	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	“जितेन्द्र ताम्रकार”	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	सुरेश बाबू कोष्टा	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	जाकिर खान (गुड्डू)	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	गोमती बाई चमार पति गनपत लाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	प्रहलाद दाहियां	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	रितु बृजेश दुबे (बब्लू पंडा)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	सिद्धार्थ उपाध्याय (गोलू)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	“रामदास साहू उर्फ वीरा”	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	अनीता पति कैलाश साहू	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	कोमल प्रसाद गौड	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	“शिवकुमारी सुनील (गामा)”	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	नगर परिषद्, मझौली जिला जबलपुर.	पार्षद	13	तेरह	रिंकी पति अनिल उर्फ गुड्डू राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	सुनील जैन उर्फ बबलू	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कृष्णा वाई पति दुर्गा दत्त भट्ट	निर्दलीय

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1839.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, शहपुरा, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, शहपुरा, जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	शिवांगिनी विक्रान्त सिंह	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	राजेश उर्फ पप्पू मासाब	निर्दलीय
3		पार्षद	2	दो	“शोभारानी औण्डेला”	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	“विवेक सिंघई” (शानू)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	नीतू खटीक	निर्दलीय
6		पार्षद	5	पांच	“प्रेमरानी सिंह”	निर्दलीय
7		पार्षद	6	छः	शशि साहू	निर्दलीय
8		पार्षद	7	सात	लखन सिंह (भमका वाले)	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	रुकमन उर्फ “रुकमणी सिंह”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	राजबहादुर सिंह “गोलू”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	दस	संगीता सेन	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	अनिल राय (बाबा)	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	श्रीमति कविता गजेन्द्र सिंह सेंगर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	श्रीमति सावित्री जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	नगर परिषद्, शहपुरा जिला जबलपुर.	पार्षद	14	चौदह	सविता / सुनील दुबे	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	कैलाश चौधरी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1840.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, कटंगी, जिला जबलपुर के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद्, कटंगी, जिला जबलपुर.	अध्यक्ष	-	-	प्रीति स्वपनिल अग्रवाल (गोले)	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	अशोक सिंह गौड	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	महेंद्र नेमा / शम्भू प्रसाद नेमा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	तीन	रामदयाल बर्मन	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	गोविन्द दुबे "मनू महाराज"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	श्रीमती ममता संतकुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	श्रीमती सपना बाई	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	डॉ. जहीर अहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	नगीना बी / मो. साहिद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	कमरुन्निसा	निर्दलीय
11		पार्षद	10	दस	बबिता दिनेश जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12		पार्षद	11	ग्यारह	मो. आजाद पिता मो. बारिस	निर्दलीय
13		पार्षद	12	बारह	शायदा परवीन W/o अजाज खान	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	रजेश चक्रवर्ती पिता भगवान दास चक्रवर्ती	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	श्रीमती सुनीताबाई	भारतीय जनता पार्टी
16		पार्षद	15	पन्द्रह	मनोज कोरी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.